KDDL Limited

Kamla Centre, SCO 88-89, Sector 8-C, Chandigarh - 160 009, INDIA. Tel: +91 172 2548223/24, 2544378/79 Fax: +91 172 2548302; Website:www.kddl.com; CIN-L33302HP1981PLC008123



Ref: KDDL/CS/2022-23/99

National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, C-1, Block G, Bandra Kurla Complex, Bandra, Mumbai - 400 051

Date: 11th February, 2023

BSE Limited, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai - 400001

Trading Symbol: KDDL

Scrip Code : 532054

Reg: Buy back of equity shares of face value of Rs. 10 each of KDDL Limited from the Open Market through Stock Exchange mechanism ("Buyback").

Sub: Filing of Post Buy-back Public Announcement pursuant to provisions of Regulation 24(vi) of the SEBI (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018 ("Buy-back Regulations") and Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Dear Sir/Ma'am,

Pursuant to provisions of Regulation 24(vi) of the Buy-back Regulations, the Company has published the Post Buyback Public Announcement in the Financial Express - English (All Editions), Janasatta - Hindi (All Editions) and Dainik Savera Times – Hindi – Regional Language – Shimla Edition on 11th February, 2023.

In compliance with Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are submitting herewith newspaper e-clippings of the Post Buy-back Public Announcement for your perusal.

You are requested to kindly take the same on record.

Thanking you,

Yours truly

For KDDL Limited

Brahm Prakash Digitally signed by Kumar

Brahm Prakash Kumar Company Secretary

WWW.FINANCIALEXPRESS.COM

Kerala Financial Corporation Regd. Office Vellayambalam, Thiruvananthapuram - 695033, Kerala Tel: +91-471-2737500, Website: www.kfc.org, Email: accounts@kfc.org Financial Results for the Quarter ended December 31, 2022

		(Rs. In lakh)					
SI No	Particulars	1	Quarter ended		Nine mon	Year ended	
		31.12.2022	30.09.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	31.03.2022
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited
1	Total Income from Operations	16,494.29	17,287.40	16,521.65	47,587.04	36,873.66	51,816.8
_	Net Profit / (Loss) for the period (before	+	9	-		-	
	Tax, Exceptional and/or Extraordinary						3,501.0
2	items)	4,495.68	6,052.62	7,019.27	15,113.28	10,757.85	3,501.0
	Net Profit / (Loss) for the period after tax	+					
	(after Exceptional and/or Extraordinary						
3	items#)	4,070.68	5,527.62	6,819.27	13,738.28	9,707.85	1,319.8
4	Paid-up Equity Share Capital	42,650.43	42,650.43	42,650.43	42,650.43	42,650.43	42,650.4
5	Reserves, Excluding Revaluation Reserves	40,506.07	36,420.34	35,237.70	40,506.07	35,237.70	26,752.7
6	Net worth	83,156.50	79,070.77	77,888.13	83,156.50	77,888.13	69,403.1
7	Outstanding Debt	5,81,954.59	5,68,134.54	3,57,651.83	5,81,954.59	3,57,651.83	4,30,886.7
8	Debt Equity Ratio	7.00	7.19	4.59	7.00	4.59	6.2
9	Capital Adequacy Ratio (%)	23.13	22.45	20.29	23.13	20.29	22.4
10	Earnings Per Share (Rs.) Basic	9.54*	12.96*	16.13*	32.25*	22.91*	3.2

Not Annualised

1. Previous figures are regrouped and rearranged wherever necessary to conform to current year's requirement.

2. The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the Quarter ended December 31, 2022 filed with Stock Exchange under Regulation 52 of SEBI (Listing Obligation and disclosures Requirements) Regulations, 2015 as amended. The full format of the aforementioned results is available on the corporation's website "www.kfc.org"and on the website "www.bseindia.com"

Place: Thiruvananthapuram, Date: 09.02.2023

Sd/- Sanjay Kaul IAS, Chairman & Managing Director, KFC

RIDGECRAFT HOMES PRIVATE LIMITED

Reg. Office:-3rd Floor, Next Door, U Block, BPTP Parklands, Sector-76, Faridabad-121001 Corporate Identification Number: - U70200HR2018PTC073851 Extract of Unaudited Financial Results for the guarter Ended December 31, 2022

Particulars	(Unaudited) (Unaudited) 6,849.58 ns 721.93 (77 nary items 721.93 (77 721.93 (77 721.93 (77 600.10 66 (2,059.02) (66 (1,458.92) (6 13,832.59 18,04 (9.48) (27	Ended on	Year Ended on
ncome from Operations rofit/(Loss) before tax, exceptional and extraordinary items rofit/(Loss) before tax but after exceptional and extraordinary items rofit/(Loss) after tax, exceptional and extraordinary items Comprehensive Income after tax r paid-up share capital ves excluding Revaluation Reserves orth ities Premium anding Debt		31.12.2021 (Unaudited)	31.03.2022 (Audited)
Total Income from Operations	6,849.58	5.22	6.59
Net Profit/(Loss) before tax, exceptional and extraordinary items	721.93	(770.23)	(1,994.97)
Net Profit/(Loss) before tax but after exceptional and extraordinary items	721.93	(770.23)	(1,994.97)
Net Profit/(Loss) after tax, exceptional and extraordinary items	721.93	(770.23)	(1,877.35)
Total Comprehensive Income after tax	721.93	(770.23)	(1,877.35)
Equity paid-up share capital	600.10	600.10	600.10
Reserves excluding Revaluation Reserves	(2,059.02)	(665.86)	(1,552.83)
Net Worth	(1,458.92)	(65.76)	(952.73)
Securities Premium	-	-	-
Outstanding Debt	13,832.59	18,046.73	19,717.39
Debt/Equity Ratio	(9.48)	(274.42)	(20.77)
Earning Per Share (of Rs.10 Each) 1. Basic: 2. Diluted	12.03 12.03	(12.84) (12.84)	(31.28) (31.28)
Capital redemption reserve	19235	2	
Debenture redemption reserve	104.37	104.37	104.37
Debt Service Coverage Ratio*	0.58	(0.06)	110.71
Interest Service Coverage Ratio* *This ratio does not include borrowing cost capitalised during the period.	2.17	(0.06)	(0.25)

Notes:

Place: Delhi

Date: 10.02.2023

- The above is an extract of detailed format of financial results filed with the Stock Exchange under Regulation 52 of SEBI (Listing and obligation Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The Full format of the quarter ended December 31, 2022 financial results are available on Company's website at www.ridgecraft.in and can also be accessed on the website of the Stock Exchange at www.bseindia.com. The above extract of unaudited standalone financial results of the Company have been reviewed and approved by the Board of Directors at its meeting held on February 10, 2023.
- . The above standalone financial results of the company have been prepared pursuant to the requirements of Regulation 52 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI (LODR)"), as amended and in accordance with Indian Accounting Standards ("Ind AS") specified under Section 133 of the Companies Act, 2013 (the 'Act'), read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, as amended.
- . For the other line items referred in regulation 52(4) of the SEBI LODR regulations prominent disclosures have been made to BSE Limited and can be accessed at www.bseindia.com

For and on behalf of the Board of Directors Sd/-

> (Subramanian Venkat Narayanan) Director DIN: 03584005



KFIN TECHNOLOGIES LIMITED (formerly known as KFin Technologies Private Limited)

CIN: L72400TG2017PLC117649

Registered office address: Selenium, Tower B, Plot No- 31 & 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad, Rangareddi, Telangana - 500032. Tel. No.: +91 40 7961 5565, Website: www.kfintech.com, Email: compliance.corp@kfintech.com

EXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31 DECEMBER 2022

SI.	W W	Quarter ended			Nine mon	Year ended	
No.	Particulars	December 31, 2022 (Unaudited)	September 30, 2022 (Unaudited)	December 31, 2021 (Unaudited)	December 31, 2022 (Unaudited)	December 31, 2021 (Audited)	March 31, 2022 (Audited)
1	Total Income from Operations	1,943.89	1,816.21	1,700.85	5,481.52	4,635.18	6,455.64
2	Net profit before tax (from ordinary activities)	714.99	595.11	408.45	1,821.58	1,317.21	2,040.00
3	Net profit before tax (after extraordinary activities)	714.99	595.11	408.45	1,821.58	1,317.21	2,040.00
4	Net profit after tax attributable to shareholders of the Company	533.76	479.16	298.90	1,387.21	976.91	1,485.49
5	Total Comprehensive Income attributable to shareholders of the Company	538.58	478.96	287.51	1,401.05	977.45	1,480.02
6	Paid-up equity share capital	1,675.69	1,675.69	1,675.68	1,675.69	1,675.68	1,675.69
7	Reserves (excluding "revaluation reserve")						4,767.74
8	Securities premium account	5,005.94	5,005.94	5,005.94	5,005.94	5,005.94	5,005.94
9	Earnings' per equity share [face value of share: ₹ 10 each]*	506 848 644	ocensorsweet.	Cested Selection	(ter-orivated)		
	Basic	3.19	2.86	1.85	8.28	6.34	9.44
	Diluted	3.15	2.83	1.85	8.20	6.34	9.36

*EPS is not annualized for the quarters and periods

Notes:

- The financial results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standard 34 ('Ind AS 34') prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 and are in compliance with the presentation and disclosure requirements of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended).
- The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results (Standalone and Consolidated) are available on the websites of BSE Limited i.e. www.bseindia.com, National Stock Exchange of India Limited i.e. www.nseindia.com and the Company i.e. http://www.kfintech.com
- Financial results of the KFin Technologies Limited (standalone financial results)

/F in Millione)

SI.		Quarter ended			Nine mon	Year ended	
No.	Particulars	December 31, 2022 (Unaudited)	September 30, 2022 (Unaudited)	December 31, 2021 (Unaudited)	December 31, 2022 (Unaudited)	December 31, 2021 (Unaudited)	March 31, 2022 (Audited)
1	Total Income from Operations	1,874.11	1,764.31	1,674.77	5,295.75	4,572.27	6,336.25
2	Net profit before tax (from ordinary activities)	715.61	595.36	405.90	1,826.47	1,338.67	2,076.31
3	Net profit before tax (after extraordinary activities)	715.61	595.36	405.90	1,826.47	1,338.67	2,076.31
4	Net profit after tax	533.38	478.89	293.43	1,392.64	1,000.63	1,530.15

The above results have been reviewed and recommended to the Board of Directors by the Audit Committee and subsequently approved by the Board of Directors at its meeting held on February 10, 2023. These results have been subjected to limited review by statutory auditors who have expressed an unmodified review conclusion on these results.

for KFin Technologies Limited

Sreekanth Nadella Managing Director and Chief Executive Officer DIN: 08659728



CIN No.: L33302HP1981PLC008123 Registered Office: Plot No.3, Sector III, Parwanoo Himachal Pradesh – 173220; Tel. No.: +91 1792 232462 Corporate Office: Kamla Centre, SCO 88-89, Sector – 8C, Chandigarh – 160 009; Tel. No.: +91 172 2548223 Fax No.: +91 172 2548302; Website: www.kddl.com; Email: investor.complaints@kddl.com; Contact Person: Brahm Prakash Kumar, Company Secretary & Compliance Officer

POST-BUYBACK PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR THE ATTENTION OF EQUITY SHAREHOLDERS / BENEFICIAL OWNERS OF EQUITY SHARES OF KDDL LIMITED

This post-Buyback public announcement ("Post-Buyback Public Announcement") is being made in accordance with Regulation 24(vi) and other applicable provisions of the Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018, for the time being in force including any statutory modifications and amendments from time to time ("Buyback Regulations") regarding completion of the Buyback.

This Post-Buyback Public Announcement should be read in conjunction with the public announcement dated January 19, 2023 ("Public Announcement") published in the news-papers on January 20, 2023 issued in connection with the Buyback. Unless specifically defined herein, capitalised terms and abbreviations used herein shall have the same meaning as ascribed to them in the Public Announcement.

THE BUYBACK

- 1.1 Pursuant to approval of the Board of Directors at their meeting held on January 18, 2023, KDDL Limited (the "Company") announced the buyback of its fully paid-up equity shares of the face value of ₹10/- (Rupees Ten) each of the Company ("Equity Shares"), from its shareholders / beneficial owners excluding its promoters, members of promoter group and persons who are in control of the Company, for an aggregate amount not exceeding ₹ 2,100 Lakhs (Rupees Two Thousand One Hundred Lakhs Only) ("Maximum Buyback Size"), and at a price not exceeding ₹ 1,200/- (Rupees One Thousand Two Hundred Only) per Equity Share ("Maximum Buyback Price"), payable in cash, from the open market through stock exchange mechanism i.e., using the electronic trading facilities of the stock exchanges where the Equity Shares of the Company are listed i.e., National Stock Exchange of India Limited ("NSE") and BSE Limited ("BSE") (collectively referred as the "Stock Exchanges"). The Maximum Buyback Size and Maximum Buyback Price do not include any expenses for the Buyback like filing fees payable to the SEBI, advisors' fees, intermediaries' fees, stock exchange fee for usage of their platform for the Buyback, brokerage, applicable taxes such as buyback tax, securities transaction tax, goods and services tax, stamp duty, public announcement publication expenses and other incidental and related expenses ("Transaction Costs").
- 1.2 The Maximum Buyback Size represents 9.73% and 8.47% of the aggregate of the fully paid-up capital, and free reserves of the Company, based on the audited standalone and audited consolidated financial statements of the Company as at March 31, 2022, respectively (being the latest available audited standalone and audited consolidated financial statements of the Company).
- 1.3 The Buyback commenced on January 25, 2023 and closed on February 9, 2023 (both days inclusive).
- 1.4 Till the date of closure of the Buyback, the Company has bought back 1,99,947 Equity Shares at an average price of ₹ 1,050.28 per Equity Share for an aggregate consideration of ₹ 20,99,99,526.30 (Rupees Twenty Crore Ninety Nine Lakhs Ninety Nine Thousand Five Hundred Twenty Six and Paisa Thirty Only) excluding Transaction Costs which represents 99.999774 % of the Maximum Buyback Size.
- 1.5 In view of the fact that the Company has utilized 99.999774 % of the Maximum Buyback Size (excluding Transaction Costs) till February 9, 2023, the Buyback Committee constituted by the Board decided to close the Buyback with effect from closing of trading hours on February 9, 2023, prior to six months from the date of commencement of Buyback. Intimation for closure of the Buyback was issued to the Stock Exchanges on February 9, 2023.
- 2. DETAILS OF THE BUYBACK
- 2.1 The Company bought back a total of 1,99,947 (One Lakh Ninety Nine Thousand Nine Hundred Forty Seven) Equity Shares, utilising a total of ₹ 20,99,99,526.30 (Rupees Twenty Crore Ninety Nine Lakhs Ninety Nine Thousand Five Hundred Twenty Six and Paisa Thirty Only) (excluding Transaction Costs), which represents 99.999774 % of the Maximum Buyback Size. The price at which the Equity Shares were bought back was dependent on the price quoted on the Stock Exchanges during the Buyback. The highest price at which the Equity Shares were bought back was ₹ 1,099.79 (Rupees One Thousand and Ninety Nine and Paisa Seventy Nine Only) per Equity Share while the lowest price was ₹ 1,033.90 (Rupees One Thousand and Thirty Three and Paisa Ninety Only) per Equity Share. The Equity Shares were bought back at an average price of ₹ 1,050.28 (Rupees One Thousand and Fifty and Paisa Twenty Eight Only) per Equity Share. These prices are based on contract notes issued by Company's Broker i.e. Antique Stock Broking Limited and excluding Transaction Costs, and have been rounded off to two decimal points.
- 2.2 The pay-out formalities have been completed as per settlement mechanism with the Stock Exchanges
- 2.3 The Company has extinguished 1,63,025 (One Lakh Sixty Three Thousand and Twenty Five) Equity Shares till date. The Company is in the process of extinguishment of the remaining 36,922 Equity Shares bought back by the Company and shall be completed in accordance with the Buyback Regulations and the Companies Act, 2013.
- 2.4 All Equity Shares bought back were in the demat segment from the Stock Exchanges. As the Buyback was done from the open market through the Stock Exchanges, the identity of shareholders from whom Equity Shares exceeding 1% of the total Equity Shares was bought in the Buyback is not known.
- 3. CAPITAL STRUCTURE AND SHAREHOLDING PATTERN
- 3.1 The capital structure of the Company as on the date of Public Announcement ("Pre-Buyback") and as on February 10, 2023 ("Post-Buyback") is set forth below:

(₹ in lakhs)

Share Capital	(As on the date of this Public Announcement)	(Post completion of the Buyback)*
Authorized Share Capital of the Company (2,80,00,000 equity shares of ₹ 10 each)	2,800.00	2,800.00
Issued Capital		
1,29,11,344 equity shares of ₹ 10 each	1,291.13	
Subscribed and Paid-up Share Capital of the Company		
Pre-Buyback: 1,27,37,064 equity shares of ₹ 10 each Post-Buyback: 1,25,37,117 equity shares of ₹ 10 each	1,273.70	1,253.71
Add: 1,74,280 Equity Shares of ₹ 10 each forfeited	17.43	17.43
	1,291.13	1,271.14

*Out of the total of 1,99,947 Equity Shares bought back, the Company is in the process of extinguishing remaining 36,922 Equity Shares bought back. The equity share capital post completion of the Buyback ('Post Buyback') is provided assuming extinguishment of all Equity Shares bought back by the Company.

3.2 The shareholding pattern of the Company as on January 18, 2023, as disclosed in the Public Announcement ("Pre-Buyback") and as on February 10, 2023 ("Post-Buyback") is set forth below:

C		Pre-Buyback			Post-Buyback*			
Sr. No.	Shareholder	No. of Equity Shares	% of Equity Shares	No	o. of Equity Shares		% of Equity Shares	
A.	Promoter & Promoter Group	62,74,346	49.26		62,74,346		50.05	
B.	Public Shareholders	64,62,718	50.74	1		7		
	Sub Total (A+B)	1,27,37,064	100.00	-	62,62,771	- 4	49.95	
C.	Non-Promoter -Non-Public		-		0.00			
	Grand Total (A+B+C)	1,27,37,064	100.00		1,25,37,117		100.00	

*Out of the total of 1,99,947 Equity Shares bought back, the Company is in the process of extinguishing remaining 36,922 Equity Shares bought back. The Post-Buyback shareholding pattern is provided assuming extinguishment of all Equity Shares bought back by the Company.

Manager to the Buy-back

Tel. Website

Name : ITI Capital Limited Address

: www.iticapital.in

: ITI House 36, Dr. R. K. Shirodkar Marg, Parel, Mumbai - 400 012 : +91 22 6911 3388 / 6911 3371

Fax : +91 22 6911 3389 Email : kddlbuvback@iticapital.in : Mihir Pandhi / Pallavi Shinde **Contact Person**

SEBI Registration No.: INM000010924 Validity Period : Permanent CIN : U74140MH1999PLC122493

5. For further details, please refer to the Company's website at www.kddl.com and the websites of Stock Exchanges at www.nseindia.com and www.bseindia.com

6. DIRECTORS' RESPONSIBILITY

As per Regulation 24(i)(a) of the Buyback Regulations, the Board of Directors, accepts full and final responsibility for the information contained in this Post-Buyback Public Announcement and confirms that the information included herein contains true, factual and material information and does not contain any misleading information.

For and on behalf of the Board of Directors of KDDL LIMITED Sd/-

Name: Yashovardhan Saboo Designation: Chairman & Managing Director DIN: 00012158

Name: Name: Sanjeev Kumar Masown Brahm Prakash Kumar Designation: Whole time Director & Designation: Company Secretary & CFO DIN: 03542390

Place: Chandigarh Date: February 10, 2023

Sd/-

Compliance Officer ICSI Membership Number: 7519

PRESSMAN

Sd/-



financialexpress.com

New Delhi



Place: Hyderabad

Date: 10 February 2023

HDFC BANK

विशिष्ठ प्रचालन विभग 5वीं गंजिल, अंसल क्लासिक टॉवर,

राजौरी गार्डन, नई दिल्ली-110027

भार्गव, प्राधिकृत अधिका एचडीएफसी बैंक लिमिटे

NEWAGE MARKETING LTD Email Id: newagemarketing1984@gmail.com; Tel No.: +91 11-28711851 CIN: L51909DL1984PLC018695, Website: www.newagemarketing.in Statement of Standalone Un-Audited Financial Results for the Quarter and Nine

Months ended De	cember 31, 2	2022 (R	s. in hundreds)
Particular	3 Months ended	Year to Date fugures for current period ended	Correspond- ing 3 Months ended in the previous year
	12/31/2022	12/31/2022	12/31/2021
	Un-Audited	Un-Audited	Un-Audited
Total income from operations (net)			8
Net Profit / (Loss) from ordinary activities after tax	(482.49)	(2475.90)	(766.04)
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Extraordinary items)	(482.49)	(2475.90)	(766.04)
Paid-up Equity Share Capital	83583.10	83583.10	83583.10
Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)			627584.39
Earnings Per Share (before extraordinary items) (of Rs. 10/- each): Basic & Diluted [in Rupees]	(0.001)	{0.003}	(0.001)
Earnings Per Share (after extraordinary items) [of Rs. 10/- each]: Basic & Diluted [in Rupees]	(0.001)	(0.003)	(0.001)
Note: The above is an extract of the detailed for	mat of Quarter	ly Financial Resi	ults filed with the

Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results is available on the Stock Exchange websites; www.msei.in

For Newage Marketing Limited

Manish Arora Chairman & Managing Directo DIN: 00373026

स्यान: गुडुगाँव		ग्राम / गा	धिकृत अधिकार्र
गुरुग्राम / एमजी रोड	15286100	016326 (2213037)	
गुरुग्राम / एमजी रोड		000919 (2172259)	
गुरुग्राम / एमजी रोड		002147 (2296278)	
गुरुग्राम / एमजी रोड		000307 (2207184)	
गुरुग्राम / एमजी रोड		000604 (2222105)	
गुरुग्राम / एमजी रोड		000570 (2142907)	
गुरुग्राम / एमजी रोड		001743 (2122146)	
गुरुग्राम/एमजी रोड		000679 (2223960)	
गुरुग्राम/एमजी रोड		000653 (2226628)	
गुरुग्राम/एमजी रोड		000588 (2221111)	
शाखा का नाम		ा संख्या (रूपीक आईडी	1)
किसी भावी सूचना के किसी भी बाद		Ü	
आभूषणों की किसी या सभी वस्तुओं			
गुड़गाँव, हरियाणा—122002 में है	ोंक से संपर्क कर र	नकते हैं। यदि किसी कारण	से गिरवी रखे ग
https://gold.samil.in. के माध जानकारी के लिए नीलामी पोर्टल प			
लिमिटेड द्वारा नीचे दिए गए खातों			
एतदद्वारा आम जनता को और विशे			
सार्वज	निक सुचना -	रबण नालामा	
एमजी रोड, गुड़गाँव, हरिय	याणा—122002	REGD. OFFICE: AL	
शॉप सं. 5, सेवा कॉप	रिट पार्क	YOUR PERFECT BAN	KING PARTNE

This is a public announcement for information purposes only and is not a prospectus announcement and does not constitute an invitation or offer to acquire, purchase or subscribe to securities. Not for release, publication or distribution directly or indirectly, outside India.

PUBLIC ANNOUNCEMENT



Place: New Delhi

Date: 10.02.2023



IDEAFORGE TECHNOLOGY LIMITED

Our Company was incorporated as "ideaForge Technology Private Limited" on February 8, 2007, as a private limited company under the Companies Act, 1956, pursuant to a certificate of incorporation dated February 8, 2007, issued by the Registrar of Companies, Maharashtra at Mumbai (the "RoC"). Upon the conversion of our Company into a public limited company, pursuant to a resolution passed by our Shareholders on December 20, 2022, the name of our Company was changed to "ideaForge Technology Limited" and a fresh certificate of incorporation dated January 2, 2023 was issued by the RoC. For details in relation to the changes in the registered office of our Company, see 'History and' Certain Corporate Matters' on page 212 of the Draft Red Herring Prospectus ("DRHP") dated February 10, 2023 filed with Securities and Exchange Board of India ("SEBI") on February 10, 2023.

Corporate Identity Number: U31401MH2007PLC167669

Registered Office: EL-146, TTC Industrial Area, Electronic Zone MIDC, Mahape, Navi Mumbai, Thane 400 710, Maharashtra, India Contact Person: Sonam Gupta, Company Secretary and Compliance Officer; Tel.: +91 22-67875000 E-mail: compliance@ideaforgetech.com; Website: www.ideaforgetech.com

PROMOTERS OF OUR COMPANY: ANKIT MEHTA, RAHUL SINGH AND ASHISH BHAT

INITIAL PUBLIC OFFERING OF UP TO [...] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH ("EQUITY SHARES") OF IDEAFORGE TECHNOLOGY LIMITED (OUR "COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ [.] PER EQUITY SHARE INCLUDING A SECURITIES PREMIUM OF ₹ [.] PER EQUITY SHARE (THE "OFFER PRICE") AGGREGATING UP TO ₹ [+] MILLION (THE "OFFER"). THE OFFER COMPRISES OF A FRESH ISSUE OF UP TO [+] EQUITY SHARES BY OUR COMPANY AGGREGATING UP TO ₹3,000.00 MILLION (THE "FRESH ISSUE") AND AN OFFER FOR SALE OF UP TO 4,869,712 EQUITY SHARES (THE "OFFERED SHARES") AGGREGATING UP TO ₹ [•] MILLION (THE "OFFER FOR SALE"), COMPRISING OF UP TO 158,200 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ [•] MILLION BY ASHISH BHAT ("PROMOTER SELLING SHAREHOLDER"), UP TO 8,362 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ [◆] MILLION BY AMARPREET SINGH, UP TO 22,600 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ [•] MILLION BY NAMBIRAJAN SESHADRI, UP TO 22,600 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ [•] MILLION BY NARESH MALHOTRA, UP TO 203,400 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ [♦] MILLION BY SUJATA VEMURI, UP TO 51,980 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ [●] MILLION BY SUNDARARAJAN K PANDALGUDI, (THE "INDIVIDUAL SELLING SHAREHOLDERS"), UP TO 135,600 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ [●] MILLION BY A&E INVESTMENT LLC, UP TO 53,200 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹[●] MILLION BY AGARWAL TRADEMART PRIVATE LIMITED, UP TO 1,106,722 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ [●] MILLION BY CELESTA CAPITAL II MAURITIUS, UP TO 131,758 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ [●] MILLION BY CELESTA CAPITAL II-B MAURITIUS, UP TO 202,044 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ [●] MILLION BY EXPORT AND IMPORT BANK OF INDIA, UP TO 1,695,000 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ [.] MILLION BY INDUSAGE TECHNOLOGY VENTURE FUND I, UP TO 1,055,646 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ [◆] MILLION BY QUALCOMM ASIA PACIFIC PTE. LTD. AND UP TO 22,600 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ [◆] MILLION BY SOCIETY FOR INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP (COLLECTIVELY REFERRED TO AS THE "CORPORATE SELLING SHAREHOLDERS" AND TOGETHER WITH THE PROMOTER SELLING SHAREHOLDER AND THE INDIVIDUAL SELLING SHAREHOLDERS, REFERRED TO AS THE "SELLING SHAREHOLDERS").

THE OFFER INCLUDES A RESERVATION OF UP TO [●] EQUITY SHARES, AGGREGATING UP TO ₹ [●] MILLION (CONSTITUTING UP TO [●]% OF THE POST OFFER PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY, FOR SUBSCRIPTION BY ELIGIBLE EMPLOYEES (THE "EMPLOYEE RESERVATION PORTION"). THE OFFER LESS THE EMPLOYEE RESERVATION PORTION IS HEREINAFTER REFERRED TO AS THE "NET OFFER". THE OFFER AND THE NET OFFER SHALL CONSTITUTE [◆]% AND [◆]%, RESPECTIVELY, OF THE POST-OFFER PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY, OUR COMPANY, INDUSAGE AND CELESTA CAPITAL MAY, IN CONSULTATION WITH THE BOOK RUNNING LEAD MANAGERS ("BRLMS"), OFFER A DISCOUNT OF UP TO ₹ [•] ON THE OFFER PRICE TO ELIGIBLE EMPLOYEES BIDDING IN THE EMPLOYEE RESERVATION PORTION ("EMPLOYEE DISCOUNT")

OUR COMPANY, IN CONSULTATION WITH THE BOOK RUNNING LEAD MANAGERS, MAY CONSIDER ISSUE OF SPECIFIED SECURITIES AS MAY BE PERMITTED UNDER THE APPLICABLE LAW, AGGREGATING UP TO ₹ 600.00 MILLION, PRIOR TO FILING OF THE RED HERRING PROSPECTUS WITH THE ROC (THE "PRE-IPO PLACEMENT"). THE PRE-IPO PLACEMENT, IF UNDERTAKEN, WILL BE AT A PRICE TO BE DETERMINED BY OUR COMPANY, IN CONSULTATION WITH THE BOOK RUNNING LEAD MANAGERS. IF THE PRE-IPO PLACEMENT IS COMPLETED, THE AMOUNT RAISED PURSUANT TO THE PRE-IPO PLACEMENT WILL BE REDUCED FROM THE FRESH ISSUE, SUBJECT TO COMPLIANCE WITH RULE 19(2)(B) OF THE SECURITIES CONTRACTS (REGULATION) RULES, 1957, AS AMENDED (THE "SCRR"). THE PRE-IPO PLACEMENT SHALL NOT EXCEED 20% OF THE SIZE OF THE FRESH ISSUE.

THE PRICE BAND. THE EMPLOYEE DISCOUNT AND THE MINIMUM BID LOT SIZE WILL BE DECIDED BY OUR COMPANY AND INDUSAGE AND CELESTA CAPITAL, IN CONSULTATION WITH THE BRLMS, AND WILL BE ADVERTISED IN [.] EDITIONS OF [.] (A WIDELY CIRCULATED ENGLISH NATIONAL DAILY NEWSPAPER), [.] EDITIONS OF [◆] (A WIDELY CIRCULATED HINDI NATIONAL DAILY NEWSPAPER) AND [◆] EDITIONS OF [◆] (A WIDELY CIRCULATED MARATHI DAILY NEWSPAPER, MARATHI BEING THE REGIONAL LANGUAGE OF MAHARASHTRA, WHERE THE REGISTERED OFFICE OF OUR COMPANY IS LOCATED), AT LEAST TWO WORKING DAYS PRIOR TO THE BID/ OFFER OPENING DATE AND SHALL BE MADE AVAILABLE TO THE BSE LIMITED ("BSE") AND NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED ("NSE", AND TOGETHER WITH BSE, THE "STOCK EXCHANGES") FOR UPLOADING ON THEIR RESPECTIVE WEBSITES, IN ACCORDANCE WITH THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2018, AS AMENDED (THE "SEBI ICDR

In case of any revision in the Price Band, the Bid/ Offer Period shall be extended for at least three additional Working Days after such revision of the Price Band, subject to the total Bid/ Offer Period not exceeding 10 Working Days. In cases of force majeure, banking strike or similar circumstances, our Company may, for reasons to be recorded in writing, extend the Bid/ Offer Period for a minimum of three Working Days, subject to the Bid/ Offer Period not exceeding 10 Working Days. Any revision in the Price Band, and the revised Bid/ Offer Period, if applicable, shall be widely disseminated by notification to the Stock Exchanges by issuing a public notice and also by indicating the change on the websites of the BRLMs and at the terminals of the Members of the Syndicate and by intimation to Designated Intermediaries and Sponsor Bank(s), as applicable.

The Offer is being made in terms of Rule 19(2)(b) of the SCRR, read with Regulation 31 of the SEBI ICDR Regulations. The Offer is being made through the Book Building Process, in compliance with Regulation 6(2) of SEBI ICDR Regulations, wherein not less than 75% of the Net Offer shall be available for allocation on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers ("QIBs" and such portion, the "QIB Portion"), provided that our Company, Indusage and Celesta Capital may, in consultation with the BRLMs, allocate up to 60% of the QIB Portion to Anchor Investors and the basis of such allocation will be on a discretionary basis by our Company, Indusage and Celesta Capital, in consultation with the BRLMs (the "Anchor Investor Portion"), of which one-third shall be reserved for the domestic Mutual Funds, subject to valid Bids being received from the domestic Mutual Funds at or above the price at which allocation is made to Anchor Investors ("Anchor Investor Allocation Price") in accordance with the SEBI ICDR Regulations. In the event of undersubscription or non-allocation in the Anchor Investor Portion, the balance Equity Shares shall be added to the QIB Portion (other than the Anchor Investor Portion) (the "Net QIB Portion"). Further, 5% of the Net QIB Portion (excluding the Anchor Investor Portion) shall be available for allocation on a proportionate basis only to Mutual Funds, subject to valid Bids being received at or above the Offer Price, and the remainder of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to all QIBs (other than Anchor Investors), including Mutual Funds, subject to valid Bids being received at or above the Offer Price. Further, up to [●] Equity Shares aggregating to ₹ [●] million will be available for allocation to Eligible Employees, subject to valid Bids being received at or above the Offer Price. Further, not more than 15% of the Net Offer shall be available for allocation on a proportionate basis to Non-Institutional Investors ("Non-Institutional Portion") (out of which one-third of the portion available to Non-Institutional Investors will be available for allocation to Bidders with an application size of more than ₹ 200,000 and up to ₹ 1,000,000 and two-thirds of the Non-Institutional Portion will be available for allocation to Bidders with an application size of more than ₹ 1,000,000 and under-subscription in either of these two sub-categories of Non-Institutional Portion may be allocated to Bidders in the other sub-category of Non-Institutional Portion) and not more than 10% of the Net Offer shall be available for allocation to Retail Individual Investors ("Retail Portion"), in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received from them at or above the Offer Price. All Bidders (except Anchor Investors) shall mandatorily participate in the Offer only through the Application Supported by Blocked Amount ("ASBA") process and shall provide details of their respective bank account (including UPI ID for UPI Bidders using UPI Mechanism) in which the Bid Amount will be blocked by the Self Certified Syndicate Banks ("SCSBs") or the Sponsor Bank. Anchor Investors are not permitted to participate in the Anchor Investor Portion through the ASBA process. Further, Equity Shares will be allocated on a proportionate basis to Eligible Employees applying under the Employee Reservation Portion, subject to valid Bids received from them at or above the Offer Price. For details, see 'Offer Procedure' on page 401 of the DRHP.

This public announcement is being made in compliance with the provisions of Regulation 26(2) of the SEBI ICDR Regulations to inform the public that our Company is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to undertake initial public offering of its Equity Shares pursuant to the Issue and the DRHP dated February 10, 2023 has been filed with the SEBI on February 10, 2023.

Pursuant to Regulation 26(1) of the SEBI ICDR Regulations, the DRHP filed with SEBI shall be made available to the public for comments, if any, for a period of at least 21 days, from the date of such filing by hosting it on the websites of SEBI at www.sebi.gov.in, Stock Exchanges i.e., BSE at www.bseindia.com, NSE at www.nseindia.com and the websites of BRLMs, i.e. JM Financial Limited at www.jmfl.com and IIFL Securities Limited at www.iiflcap.com. Our Company hereby invites the members of the public to give their comments on the DRHP filed with SEBI with respect to disclosures made in the DRHP. The public is requested to send a copy of the comments sent to SEBI, to the Company Secretary and Compliance Officer of our Company and the BRLMs at their respective addresses mentioned below. All comments must be received by SEBI, and/or our Company and/or the BRLMs and/or the Company Secretary and Compliance Officer of our Company in relation to the Offer on or before 5 p.m. on the 21" day from the aforesaid date of filing the DRHP

Investments in equity and equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in the Offer unless they can afford to take the risk of losing their entire investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in the Offer. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of our Company and the Offer, including the risks involved. The Equity Shares have not been recommended or approved by the SEBI, nor does SEBI

guarantee the accuracy or adequacy of the contents of the DRHP. Specific attention of the investors is invited to 'Risk Factors' beginning on page 29 of the DRHP. Any decision to invest in the Equity Shares described in the DRHP may only be made after the red herring prospectus ("RHP") has been filed with the RoC and must be made solely on the basis of such RHP as there may be material changes in the RHP from the DRHP. The Equity Shares, when offered, through the RHP, are proposed to be listed on Stock Exchanges.

For details of the main objects of our Company as contained in its Memorandum of Association, see "History and Certain Corporate Matters" on page 212 of the DRHP. The liability of the members of our Company is limited. For details of the share capital and capital structure of our Company and the names of the signatories to the Memorandum of and the number of charge subscribed by them of our Company, places see "Capital Structure" on page 74 of the DRHP

Service of the Service for the Control of the Service of the Servi	OF OUR COMPANY WILL GET LISTED ON MAIN BO	Appropries are a second and a second a second and a second a second and a second and a second and a second and a second an
BOOK RUNNIN	IG LEAD MANAGERS	REGISTRAR TO THE OFFER
JM FINANCIAL	IIFL SECURITIES	LINKIntime

JM Financial Limited 7" Floor, Cnergy, Appasaheb Marathe Marg Prabhadevi, Mumbai 400 025 Maharashtra, India Tel.: +91 22 6630 3030 E-mail: ideaforge.ipo@jmfl.com Investor grievance email: grievance.ibd@jmfl.com Contact person: Prachee Dhuri Website: www.jmfl.com

IIFL Securities Limited 10" Floor, IIFL Centre, Kamala City, Senapati Bapat Marg, Lower Parel (West), Mumbai 400 013 Maharashtra, India Tel: +91 22 4646 4728 E-mail: ideaforge.ipo@iiflcap.com Investor grievance e-mail: ig.ib@iiflcap.com Contact person: Pawan Jain/ Shirish Chikalge Website: www.iiflcap.com

Link Intime India Private Limited C-101, 1" Floor, 247 Park L.B.S. Marg, Vikhroli West Mumbai 400 083 Maharashtra, India Tel: +91 810 811 4949

E-mail: ideaforge.ipo@linkintime.co.in Website: www.linkintime.co.in Investor grievance e-mail: ideaforge.ipo@linkintime.co.in Contact person: Shanti Gopalkrishnan SEBI Registration No.: INR000004058

SEBI Registration No.: INM000010361 SEBI Registration No.: INM000010940 All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the DRHP.

For IDEAFORGE TECHNOLOGY LIMITED On behalf of the Board of Directors

Sonam Gupta Company Secretary and Compliance Officer

IDEAFORGE TECHNOLOGY LIMITED is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to undertake an initial public offering of its Equity Shares and the DRHP dated February 10, 2023 has been filed with SEBI on February 10, 2023. The DRHP shall be available on the websites of SEBI at www.sebi.gov.in, stock exchanges i.e., BSE at www.bseindia.com and NSE at www.nseindia.com and is available on the websites of the BRLMs, i.e. JM Financial Limited at www.imfl.com and IFL Securities Limited at www.iiflcap.com. Potential investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to such risk, see the section titled "Risk Factors" beginning on page 29 of the DRHP, Potential investors should not rely on the DRHP filed with SEBI for making any investment decision.

The Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "U.S. Securities Act") or any state securities laws in the United States, and unless so registered, and may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and applicable U.S. state securities laws. Accordingly, the Equity Shares are being offered and sold outside the United States in offshore transactions in reliance on Regulation S and the applicable laws of each jurisdictions where such offers and sales are made. There will be no public offering of the Equity Shares in the United States.

विशिष्ठ प्रचालन विभग- 5वीं मंजिल, अंसल क्लासिक टॉवर HDFC BANK राजौरी गार्डन, नई दिल्ली-110027 कब्जा नोटिस (अचल संपत्ति के लिए)

{ नियम **8(1)**} जबिक, अधोहस्ताक्षरी, वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, इसका पंजीकृत कार्यालयः बैंक हाउस, सेनापित बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-400013 में है और इसका एक कार्यालय 5वीं मंजिल, अंसल क्लासिक टॉवर, प्लॉट नंबर 1. जे ब्लॉक सामुदायिक केंद्र के पास, राजौरी गार्डन, नई दिल्ली–110027 में है, के अधिकृत अधिकारी होने के नाते और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2)के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए उत्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत दिनांक 11 नवम्बर 2022 को मांग नोटिस जारी किया जिसमें उधारकर्ता मैसर आर एस स्टील कास्टिंग एंड इंजीनियरिंग वर्क्स, सृश्री शिखा जैन और श्री राज कुमार जैन की एक साझेदारी फर्म जिसका कार्यालय :ग्राम बामन हेडी एलाईओवर के नीचे रुड़की रोड मजफ्फरनगर-251001. उत्तर प्रदेश में है और गारंटीकर्ता सुश्री शिखा जैन और श्री राज कुमार जैन से नोटिस में उल्लिखित राशि 11 नवम्बर 2022 व अनुसार रु. 38,49,820.15 / – (रुपए अड़तीस लाख उन्चास हजार आठ सौ बीस और पंद्रह पैसा मात्र) साथ ही उस पर ब्याज का भगतान उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर करने को कहा गया है। ऋणी,बंधकों,गारंटरों द्वारा राशि को चुकाने में विफल रहे हैं, ऋणी,बंधकों,गारंटरों और आम जनता को एतद्दवा नोटिस दिया जाता है कि एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमों के नियम 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का नीचे उल्लिखित दिनांक और समय पर कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से ऋणी,बंधकों एवं गारंटरों और आम जनता को एतद्दवारा आगाह किया जाता है उक्त संपत्तियों

साथ सौदा न करें और संपत्ति के साथ किसी भी तरह का लेन-देन एचडीएफसी बैंक लिमिटेड को उपरोक्त वर्णित राशि के साथ उस पर ब्याज के प्रभार के अधीन होगा प्रतिभृति संपत्तियों को भूनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 के उप-धारा (8) व

प्रावधानों के तहत ऋणी /बंधकों / गारंटरों का ध्यान आकर्षित किया जाता है। कब्जे की तिथि

10 फरवरी 2023 मजफ्फरनगर. उत्तर प्रदेश ानिरुद्ध भार्गव, प्राधिकृत अधिका दिनांकः 10-फ्रवरी-2023 एचडीएफसी बैंक लिमिटेड

कब्जा नोटिस (अचल संपत्ति के लिए) { नियम 8(1)} जबकि अधोहस्ताक्षरी वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभतिकरण और पूनर्निर्माण तथा प्रतिभति हित प्रवर्तन अधिनिया 2002 के तहत एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, इसका पंजीकृत कार्यालयः बैंक हाउस, सेनापित बापट मार लोअर परेल, मुंबई-400013 में है और इसका एक कार्यालय 5वीं मंजिल, अंसल क्लासिक टॉवर, प्लॉट नंबर 1, जे ब्लॉक, सामुदायिक केंद्र के पास, राजौरी गार्डन, नई दिल्ली-110027 में है, के अधिकृत अधिकारी होने के नाते और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पिटत धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत दिनांक 21 अक्टूबर 2022 को मां नोटिस जारी किया जिसमें उधारकर्ता मैसर्स सत्य नारायण एंटरप्राइजेज, श्री सत्यनारायण की एक स्वामित वाली फर्म जिसका कार्यालय दकान नंबर 3 महंत मार्केट शिव मंदिर वाली गली इमली ताला रायवाल सहारनपर में है और गारंटर अर्थात श्री सत्यनारायण और श्रीमती अर्चना से नोटिस में उल्लिखित राशि 18—अक्टूबर—2022 के अनुसार रु. 52,88,782.61 / — (रुपये बावन लाख अठासी हजार सात सौ बयासी और पैसा इकसठ मात्र) साथ ही उस पर ब्याज का भगतान उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर करने को कहा गया है। ऋणी,बंधकों,गारंटरों द्वारा राशि को चुकाने में विफल रहे हैं, ऋणी,बंधकों,गारंटरों और आम जनता को एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमों के नियम 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हए नीचे वर्णित संपत्ति का नीचे उल्लिखित दिनांक और समय पर कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से ऋणी बंधकों एवं गारंटरों और आम जनता को एतद्दवारा आगाह किया जाता है उक्त संपत्तियं के साथ सौदा न करें और संपत्ति के साथ किसी भी तरह का लेन-देन एचडीएफसी बैंक लिमिटेड क उपरोक्त वर्णित राशि के साथ उस पर ब्याज के प्रभार के अधीन होगा। प्रतिभृति संपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 के उप-धारा (8) के प्रावधानों के तहत ऋणी /बंधकों / गारंटरों का ध्यान आकर्षित किया जाता है। कब्जे की तिथि

मापक्षेत्र -54 50 वर्ग गज मोहल्ला अहिरान तहसील और जिला सहारनपर उत्तर प्रदेश



स्थान : सहारनपुर दिनांकः 09—फ़्रवरी—2023

CIN No.: L33302HP1981PLC008123

Registered Office: Plot No.3, Sector III, Parwanoo Himachal Pradesh – 173220; Tel. No.: +91 1792 232462 Corporate Office: Kamla Centre, SCO 88-89, Sector - 8C, Chandigarh - 160 009; Tel. No.: +91 172 2548223 Fax No.: +91 172 2548302; Website: www.kddl.com; Email: investor.complaints@kddl.com; Contact Person: Brahm Prakash Kumar, Company Secretary & Compliance Officer

POST-BUYBACK PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR THE ATTENTION OF EQUITY SHAREHOLDERS / BENEFICIAL OWNERS OF EQUITY SHARES OF KDDL LIMITED

This post-Buyback public announcement ("Post-Buyback Public Announcement") is being made in accordance with Regulation 24(vi) and other applicable provisions of the Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018, for the time being in force including any statutory modifications and amendments from time to time ("Buyback Regulations") regarding completion of the Buyback.

This Post-Buyback Public Announcement should be read in conjunction with the public announcement dated January 19, 2023 ("Public Announcement") published in the news-papers on January 20, 2023 issued in connection with the Buyback. Unless specifically defined herein, capitalised terms and abbreviations used herein shall have the same meaning as ascribed to them in the Public Announcement.

1. THE BUYBACK

- 1.1 Pursuant to approval of the Board of Directors at their meeting held on January 18, 2023, KDDL Limited (the "Company") announced the buyback of its fully paid-up equity shares of the face value of ₹10/- (Rupees Ten) each of the Company ("Equity Shares"), from its shareholders / beneficial owners excluding its promoters, members of promoter group and persons who are in control of the Company, for an aggregate amount not exceeding ₹ 2,100 Lakhs (Rupees Two Thousand One Hundred Lakhs) Only) ("Maximum Buyback Size"), and at a price not exceeding ₹ 1,200/- (Rupees One Thousand Two Hundred Only) per Equity Share ("Maximum Buyback Price"), payable in cash, from the open market through stock exchange mechanism i.e., using the electronic trading facilities of the stock exchanges where the Equity Shares of the Company are listed i.e., National Stock Exchange of India Limited ("NSE") and BSE Limited ("BSE") (collectively referred as the "Stock Exchanges"). The Maximum Buyback Size and Maximum Buyback Price do not include any expenses for the Buyback like filing fees payable to the SEBI, advisors' fees, intermediaries' fees, stock exchange fee for usage of their platform for the Buyback, brokerage, applicable taxes such as buyback tax, securities transaction tax, goods and services tax, stamp duty, public announcement publication expenses and other incidental and related expenses ("Transaction Costs").
- 1.2 The Maximum Buyback Size represents 9.73% and 8.47% of the aggregate of the fully paid-up capital, and free reserves of the Company, based on the audited standalone and audited consolidated financial statements of the Company as at March 31, 2022, respectively (being the latest available audited standalone and audited consolidated financial statements of the Company).
- 1.3 The Buyback commenced on January 25, 2023 and closed on February 9, 2023 (both days inclusive)
- 1.4 Till the date of closure of the Buyback, the Company has bought back 1,99,947 Equity Shares at an average price of ₹ 1,050.28 per Equity Share for an aggregate consideration of ₹ 20,99,99,526.30 (Rupees Twenty Crore Ninety Nine Lakhs Ninety Nine Thousand Five Hundred Twenty Six and Paisa Thirty Only) excluding Transaction Costs which represents 99.999774 % of the Maximum Buyback Size.
- 1.5 In view of the fact that the Company has utilized 99.999774 % of the Maximum Buyback Size (excluding Transaction Costs) till February 9, 2023, the Buyback Committee constituted by the Board decided to close the Buyback with effect from closing of trading hours on February 9, 2023, prior to six months from the date of commencement of Buyback. Intimation for closure of the Buyback was issued to the Stock Exchanges on February 9, 2023.

DETAILS OF THE BUYBACK

- 2.1 The Company bought back a total of 1,99,947 (One Lakh Ninety Nine Thousand Nine Hundred Forty Seven) Equity Shares, utilising a total of ₹ 20,99,99,526.30 (Rupees Twenty Crore Ninety Nine Lakhs Ninety Nine Thousand Five Hundred Twenty Six and Paisa Thirty Only) (excluding Transaction Costs), which represents 99.999774 % of the Maximum Buyback Size. The price at which the Equity Shares were bought back was dependent on the price quoted on the Stock Exchanges during the Buyback. The highest price at which the Equity Shares were bought back was ₹ 1,099.79 (Rupees One Thousand and Ninety Nine and Paisa Seventy Nine Only) per Equity Share while the lowest price was ₹ 1,033.90 (Rupees One Thousand and Thirty Three and Paisa Ninety Only) per Equity Share. The Equity Shares were bought back at an average price of ₹ 1,050.28 (Rupees One Thousand and Fifty and Paisa Twenty Eight Only) per Equity Share. These prices are based on contract notes issued by Company's Broker i.e. Antique Stock Broking Limited and excluding Transaction Costs, and have been rounded off to two decimal points.
- 2.2 The pay-out formalities have been completed as per settlement mechanism with the Stock Exchanges
- 2.3 The Company has extinguished 1,63,025 (One Lakh Sixty Three Thousand and Twenty Five) Equity Shares till date. The Company is in the process of extinguishment of the remaining 36,922 Equity Shares bought back by the Company and shall be completed in accordance with the Buyback Regulations and the Companies Act, 2013.
- 2.4 All Equity Shares bought back were in the demat segment from the Stock Exchanges. As the Buyback was done from the open market through the Stock Exchanges, the identity of shareholders from whom Equity Shares exceeding 1% of the total Equity Shares was bought in the Buyback is not known.

CAPITAL STRUCTURE AND SHAREHOLDING PATTERN

3.1 The capital structure of the Company as on the date of Public Announcement ("Pre-Buyback") and as on February 10, 2023 ("Post-Buyback") is set forth below:

(₹ in lakhs)

Share Capital	Pre-Buyback (As on the date of this Public Announcement)	Post-Buyback (Post completion of the Buyback)*
Authorized Share Capital of the Company (2,80,00,000 equity shares of ₹ 10 each)	2,800.00	2,800.00
Issued Capital		
1,29,11,344 equity shares of ₹ 10 each	1,291.13	
Subscribed and Paid-up Share Capital of the Company		9
Pre-Buyback: 1,27,37,064 equity shares of ₹ 10 each Post-Buyback: 1,25,37,117 equity shares of ₹ 10 each	1,273.70	1,253.71
Add: 1,74,280 Equity Shares of ₹ 10 each forfeited	17.43	17.43
	1 291 13	1 271 14

*Out of the total of 1,99,947 Equity Shares bought back, the Company is in the process of extinguishing remaining 36,922 Equity Shares bought back. The equity share capital post completion of the Buyback ('Post Buyback') is provided assuming extinguishment of all Equity Shares bought back by the Company.

3.2 The shareholding pattern of the Company as on January 18, 2023, as disclosed in the Public Announcement ("Pre-Buyback") and as on February 10, 2023 ("Post-Buyback") is set forth below:

		Pre-Buyback			Post-Buyback*			
Sr. No.	Shareholder	No. of Equity Shares	% of Equity Shares	N	lo. of Equity Shares	Equ	% of uity Shares	
A.	Promoter & Promoter Group	62,74,346	49.26		62,74,346		50.05	
В.	Public Shareholders	64,62,718	50.74	1	10 00	1		
	Sub Total (A+B)	1,27,37,064	100.00	-	62,62,771	_=	49.95	
C.	Non-Promoter -Non-Public		-					
	Grand Total (A+B+C)	1,27,37,064	100.00		1,25,37,117		100.00	

*Out of the total of 1,99,947 Equity Shares bought back, the Company is in the process of extinguishing remaining 36,922 Equity Shares bought back. The Post-Buyback shareholding pattern is provided assuming extinguishment of all Equity Shares bought back by the Company.

4. Manager to the Buy-back

: ITI Capital Limited Name Address : ITI House 36, Dr. R. K. Shirodkar Marg, Parel, Mumbai – 400 012 Tel. : +91 22 6911 3388 / 6911 3371 Fax : +91 22 6911 3389 Email : kddlbuyback@iticapital.in Contact Person : Mihir Pandhi / Pallavi Shinde Website : www.iticapital.in SEBI Registration No.: INM000010924 Validity Period : Permanent

: U74140MH1999PLC122493 5. For further details, please refer to the Company's website at www.kddl.com and the websites of Stock Exchanges at

www.nseindia.com and www.bseindia.com 6. DIRECTORS' RESPONSIBILITY

Sd/-

Name:

Yashovardhan Saboo

Managing Director

DIN: 00012158

As per Regulation 24(i)(a) of the Buyback Regulations, the Board of Directors, accepts full and final responsibility for the information contained in this Post-Buyback Public Announcement and confirms that the information included herein contains true, factual and material information and does not contain any misleading information.

For and on behalf of the Board of Directors of KDDL LIMITED

Name: Sanjeev Kumar Masown Designation: Chairman & Designation: Whole time Director & CFO

Sd/-Name: Brahm Prakash Kumar Designation: Company Secretary & Compliance Officer

Place: Chandigarh Date : February 10, 2023

PRESSMAN

www.readwhere.com

Place: Navi Mumbai

Date: February 10, 2023

DIN: 03542390

ICSI Membership Number: 7519

माजपाइयों ने पूर्व मुख्यमंत्री धूमल से फिर सुरक्षा जवान व सुपरवाइजर के पदों हेतू 13 से 17 तक होगी भर्ती राजनीति में सक्रिय होने का किया आग्रह

आलाकमान ने धूमल से चुनाव लड़ाया होता तो प्रदेश व जिला में बजता भाजपा का डंका : भाजपा पदाधिकारी

सम्बंद सुक्राकाना । याज्य । के बीच्च नेत एवं मूंच मुक्कामी हैन कुमार पूमल द्वारा विश्व सुक्रम । सहने के बारण नाजह जिल्हा जिल्ला हमोरपुर की महत्ते हो व्यक्तिकाल पूमल पहल और महे काओ त्याप च निरात है। विको देखते हुए भारतांनी ने मूचल से आहा किया कि का एकबार पुन राजनीत It refers still refer very red to the न सकत है। जान सक्ताहर के हींच्ये कुन्द ही हुकी। शाजब के न्यू व मुत्ति न्यांकर्ताओं ने पूसत ये आहर किया कि शाजवा की कहान बारण रियाने क्षेत्र में भाजपा तथा में हो र्था और हमोरपुर किले में पायों टो पर कारीन खेलद ही र्या : इन संबंधने तांक अने वाले त्येस पुचर्व में वाटी सुद्धा हो सके और तिज्ञा का

राचा लहा होते। इन सर्थे प्रतिकारिये की देवते हुए तथा कार्यकारों का आहत से के शुक्त ने अपने सक्रियत पूर्व तात से बड़ा है है। निवाले दिसे मुख्य में प्रदेश कर्मकान्त्रित की किंद्रक में आग तित्व तथा केंद्रक में आग लिए तथा व्यक्तितांची व प्रतीवसरियें में

र्र-विविद्धा आर्मभण सूचना

प्रनामार्थती संस्थाः १४४/१३/तीएस

findings are found used for significa-

SHEET FROM PERSONAL PROPERTY.

np amb20@gmail.com

slidelfysymenium - au fowe - az/az/zaza

का - बोर्टासन / विशिवार अवस्थित पर देखते

Transpired with the street of the

ministration and of the entire state of the state sort and

more : GPs / 2x fore : 26/02-3/23

कार्यालय साम पंचायत सीड-बगेहड्स विकास खंड सुजानपुर टीहरा

fam: edingr (H.P.)

Associated and according to green with a factor over the user of course where where the ex-

on it Borewell warms rathout not it found have something with

लगंबामा परमोता में राजान्य है। इच्यूक अस्तिकार्ग हान राज्यार कीइ-कोतर

पंचायत गरिया प्राप्त पंचायत कीयू-वर्गहरू

विकास स्टेड सुमानपुर रोहरा रिक्स स्थील्युर (एक.ची.)

fibrie: 10.02.2023

WAY CHINEN SHAW कार हि.च.

Estimate Epress Tow Cost Money period

207.538- 5,255- Four Hosts

2.81.379- 6.389- FourMonts 230276- 7300- For Hores

Affinis 22-02-2022 is not found out the following of five in the first of the first in the first

कार्यालय नगर पंचायत अम्ब जिला ऊना हिमाचल प्रदेश

मार्थनिक सूचना

धर्मधान्यात्व को सुनित किया जाता है कि नाम पंचायत अन्य पर्याताव में पहे

नकार सामान कुदा पार्टी इत्यदि की मूल्ते नीलामी दिशांक 03-03-2023 समा

3.00 करे निवास की गई है। इच्यूक कोली दाता 10 समय समूच दोश अहीत अस करवा कर वीतरे में भार से सकते हैं। स्काद पढ़े सामान की इच्यूक कोली कात 10

में 5 को एक कियों के कार्य दिवस पर जा कर देख सकते हैं। जुनतर बेली

250007- रक्षी गई है उससे कम बोलों पर नहीं दिया आहत । एकल बोली प्राप

को ४४ पाने के भीतर बोली को साहर जन्म करायानी होगी जन्मक अग्रिम हाहि को

tarser was district with the sample survey a survey about it sout it has survey on wit

OFFICE OF THE MUNICIPAL COUNCIL MANALI

ाका से प्रीताचार प्रकार है। अपूर्वकार GST चाप रोज और व्यक्ति ।

प्रतिकारियों को देखते हुए, माजपत्री - जिल्लामुख्यालय पर जिला कार्रध्यपति चरे बैदक में बार लेकर पूचन ने बर्जबर्ताओं को लोक राज जुसमों को लेकर बता पर में नेती आवागमध्य होये बता पर में आपने नर्थ स मंत्र

अधारी - अधारती सहस्रोधता विवादे का मिलाकर साथ जानुगाः पूर्व मुख्यमंत्री के कैतक में ग्रामित होते से प्रतिपक्षतियों के हींसले बुलार ficial saltina finaria ficial

कार्य जिल्ला है। इस सीचे पर पानमा के मूलकेत हिंगा। संस्था के पद्मिकारियो वितय सर्वत से वेतिय सर्वत से बतर्वत वस्ते हुए बताय कि अंतर बैठक में सूचल की उपस्थित को देखकर भूगत मे का देखकर । काफी पद्मद् थे। सब्दे कही लग्नफ होता से जब प्रदेश में संजय क्ट्रिक्टिसिसे ने जिले के फोर्च दिया की सम्बन्ध होती या जिले में की साजक

जोश भरा। शुक्रभार को क्षेत्रों में स्वत्रक देश कारे का सूचन

सुजानपुर का स्वपनिल पूर्व कैबिनेट मंत्री के बने दामाद

को अपनी संस्ता है जो है और कापूर में दिका है। जीवा करता

एका स्थानिक में स्थित स्थानिक

मुजन्म, 10 फावरी | पूर्व केंद्रसार गत्रे वीद क्रांस क्षेत्र क्षेत्र निजा बनार की राग्ये पुत्तनपुर के स्वाप्तान जापुर के साथ ५ फरवारी को बेरिक नवेच्यारण के राज

प्रका हो। व्यक्तित सहर सर्वक भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड 👰

lifes, sebrarre le seu cure

हंसराज कालेज दिल्ली में प्राक्तन छात्र व्याख्यान श्रृंखला में शामिल हुए विक्रमादित्य सिंह

सि हार -02-2023 की पात पंचारत बीच -वर्गत हा की बैगत प्रचार बीका रतरी बाल जो को अध्यक्षता में सम्बन्ध हुई जिसमें उपीम्बीर क / कारी तल प्रवेश जूरे

शिमला, 10 फरवरी : स्रोल मंत्री चिक्रमादित्व विद्व ने प्राक्रमार की दिल्ली भुक्रवार को चिल्ली चित्रविद्यालय के इंग्रराज क्वेतिज के 75वें स्थापना विश्वस के उपलब्ध पर आयोजित STATE OF THE SERVICES. में बतीर मुधवतिक्षि चान रिला। इस राज्य ज्यास्थात वस विकास

भारतीय राजनीति में युवाओं का सर्वमान एवं भविष्य रखा गया वा। इस अवस्थर पर विक्रमदित्व सिंह ने नदा कि हरा संस्थान के साथ उनका बसम भूडाव रहा है। कराक स्वर की शिक्षा उन्होंने इसी संस्थान से शहण औ है। कुवा जर्मी का सकाराज्यक द्राच्या करते हुए राष्ट्र निर्माण में उनका बहुमूल्य सहयोग लिया जा समला है। उन्होंने मला कि

पुषाओं के अधीरीज विकास के लिए कई नवीन कदम उठा रही है। from its साथ-साथ उन्हें कोलों के बेच में भी फेक्टॉलन क्ला के बाव में भी प्रश्यादित किया जा रहा है। जा बात ब्रुंग्स्ट्रण के सीरान विभिन्न बाएओं में भी जनमें-जनके विभाग ज्यान किए। इस बर्जक्रम की अध्यक्षण हमाराज करोज भी प्राचार्य ग्रेपेस्टर राज

दिल्ली कलेत और आर्ट एंड क्यर्स की सहारक प्रेरिसर हा. प्रिक्ट तमेजा और प्राप्तन शाव संघ के उपाध्यक्ष निर्दित गोलक विकास अतिथि के स्थ में उपस्थित हो। ज्या नान बुध्यंता का अधिजन घेतकारीन और तेलू फिल तथा प्रतान ग्रांत त्राय को ओर में प्रधान ओस और महेंद्र गोगत ने किया।

आईएचएम हमीरपुर द्वारा एसटीसी का 6 दिवसीय प्रशिक्षण आरंभ

श्मेरपुर, १० फरवरी ्रश्योतपुर, 10 कारकार, जारेला प्रधानन सहस्रान्त (जारेपचाप) श्रीरेशा के प्रधान निर्मेत सर्जात ने जानकारों रेते शुरु बताया कि जारेल मजानन मात्र स्टास्ट क्षार प्रणीतित कर्यक य के संतर्गत होटल प्रजापन सम्बान स्टोरपुर द्वारा जायोजित छन विकारिय देवतिनेशन क्षेत्रद विकास प्रतिकाम कार्यक्र म कार्यक्र के बीच

ा बोर्ड रिकार प्रशासन कारक म बनाय से बार प्रिमित में के कहानी को सुरक्षित जाता है। उन्होंने सतावा कि यह पातपक में भारत अराकार पर्यटन पातावा की तरफ में क्लिक्ट्राक करवाया जा था है जिनमें 10 महिलाई य 12 पूर्व है तीकि का क्षेत्र में महत्त्वान कार्यों करतीवार में ताल्यक प्रभा में महत्त्वान कार्यों करतीवार में ताल्यक प्रभी हैं। उन्होंने सतावा कि इस प्रशासन अर्थक म में भाग ले खे लागार्थियों की 14 फलाएँ की परिकार में जाएंगे जी इस परिका में उतीर्थ होंगे इन्हें प्रमाण पत्र जाएं किए जाएंगे। उन्होंने सामा бы д борийн штой и бы облог цислена परवेश कुमार व प्रयोगशाला सहयक नवीन कुमार लाभावियों को प्रशिक्षण प्रधान कर रहे हैं। विश्वासाध्यक्ष पुनीत बटा ने जाताब कि श्वरत सरकार के इस महत्वताकार्थी प्रतिकाल की करवाने के तिस् संस्थान को काफो प्रतिका रित रही हैं और पर्यटम ध्यान के आध्याप फिल्म धरीत वेहरम को भी काशी मुख मीखने को फिल रहा है और अब वह पविषय में इस प्रतिश्वय का लान वी जा कोर्ने । अर्थाप्रकाम प्रदेशाय, शरीतार तीय क्वीव बीएसमी दियों, काफा कोसे व दिप्लीमा कोसे भी करात रहा है जीकि नेशवल क्योदिस्त और होतल मैनेजमेंट एल्ड फैटरिन टेक्सेक्डेजी द्वारा संबद्ध कोर्स है। आईएक्ट्स हमीरपुर की


त्रतेत न्यापित स्पेत्र । गर्ते अपिकारे अपित गर्दा वे बताव कि एकस्कोत्त स्थाप विभोद वेकस्त होता एक्टरमी बिलास्ट्रा क्रवील के तत्कारन के बेदेशमाँ की जैजनर जातक करने हेतु शरीत्यु जिला के विकार विकास करते हैं त १५ वे सब होन पहिल और बेग्या शांक्त पर तेन पाँतः । व्हेरे श्वाप वेदेशस गुपसे हे पता है कि जन विधानित विशेषा को जाने चुनितानुका कंकीस स्थान में विधानित विशेषा में धर्मी तेतु चार कर सकते हैं। स्थितने सकति अभिनेत्री का गरीकरण करने के तिए 150 व पर जान कारा रोगा गरीकृत पर्यास्त्र अमेरिकी को प्रतिकृत अगव drive is then discover better ident sealing. विशासक् केन जानेप रच उसके उन्हों उने तैनके जाने पर सुचक्र के कार्र में मार्थ हेरते हैं अपने।

विभिने का अधोजन किया जावेग। उन्होंने सहस्य कि एक्सलीहरू इंडिय लिमिट करत या आयोजन वर्षियर-१४ के प्राच्यानी प्रोप्तल दिलीचित्र व चान्य या प्रशेष के प्राप्त को बहुएएटेन बानों है जीक सुरक्षा उपन करने का कर्य पूरे भाग व विशेषों ने कर रही है। प्रतिकार पुरस्क तथन एवं बुच्छ विभा भारताः उन्हेरि शहात वि. १,3 पारती को विकास कोट कार्याला करोड, 14 सामग्री को सुकारपुर, 15 परवर्धी को बोराज, 14 परवर्धी को टीवी वेगी तथा 17 green at today at veril; before

बतका कि सुप्ता जबना एवं मुग्नामाना कर के रिक्ट कारिका कर यह जनते 168 मेरीकेट, सेंग 90-85 स्टिकेटर स्था कर 21 में 37 भी मीम म माना 56 में उसक

andodino zgoen O ICICI BOTSK street agent and to the street agent and the street agent and the street agent age

তাৰে কা বল আন প্ৰসাৰ, তাৰুৰ ভাগন আন বান কা বিজ্ঞান কা 289105000197 369105000433 gree - udpen ofpect is the unfolkerplined the felory



POST-BUYBACK PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR THE ATTENTION OF EQUITY SHAREHOLDERS / BENEFICIAL OWNERS OF EQUITY SHARES OF KIDLL LIMITED

ament ("Post-Buytesk Public Announcement") is being made int of the Securities and Eschange Sound of India (Buy-Suck of Si y elability medifications and amendments from time to time ("Bu

- Purished to digerous or the bloads of Directors as the reverse and at Jenseys and the American Service of the Company (Eq. Shares), from its shareholders Josephson of the local value of PSD-/Rippens Repl sects of the Company (Eq. Shares), from its shareholders Josephson who control of the Company (Eq. Shares), from its shareholders Josephson who control of the Company (Eq. Shares), and a shareholder of the Company (Eq. Shares) and a price of the control of the Company (Eq. Shares) (Eq. Shares)

- Company, based on the suctiled standakine and sudfeed consolidated financial statements of the Company on all Ma respectively (being the latinst invalidate audited standakines and audited consolidated financial statements of the Co-The Buylanck commission on January 25, 2023 and closed on February 6, 2023 both days instalated. Till the date of siscure of the Buylanck, the Company has beaught back 150,047 Eighty Sanes at an everage prop participally Sales for an appropriate consideration of 4 20,049.2023 30 (Rupeles Tenery Cores News) Machine Thousand Five Hundred Tenerty Six and Plains Thing Only) excluding Triestaction Costs which represents 99.309 Machine Buylanck Size.
- lastman Buyback Szes.

 view of the fact that the Company has utilized 99.990774 % of the Maximum Buyback Size (excluding Transaction Costs) till schuse; it is seen to be a seen of the fact that the Committee constituted by the Board decided to close the Buyback with effect from closing of setting the set of the Board Section of the Suyback, until effect from closing of setting the set of the Suyback, prior to six excellent from the date of commissionerist of Buyback, Intimation for closure of the special of the Special Cost Exchanges on February 9, 2023.

DETAILS OF THE BUYBACK

- DETAILS OF THE BUYBACK
 The Company bough book a total of 1,99,947 (One Lakin Ninety Nine Thousand Nine Hundred Forty Seven) Equity Shares, unlineng a total of 2.09,919,520-30 (flugness Twendy Core Ninety Nine Thousand Nine Thousand Flow Hundred Teenty Bis and Plass Thirty Citry (issuading processor Costs), which represents 99,998774 % of the Maximum Beyback Disc. The prior at which the Equity Shares were bought back was depended on the prior disperience sharey the Suppose. The Imposed price at which the Equity Shares wave bought back was \$1,099.79 (Repeas One Thousand and Yosiny Nines and Paiss Ninety Forty) see Equity Shares when the owner price was \$1,099.79 (Repeas One Thousand and Yosiny Nines and Paiss Ninety Corty) see Equity Shares when the select price was processed on the Share Share Share Shares Indicated the Shares Share Share Shares Shares
- c.s., Antique Stock training Limited and exclusing transaction Costs, and have been manifed off to two occurring ports.
 2.2 The gov-up formalities have been complicated as por estillarent mechanism with the Blook Exchanges.
 2.3 The Company has exclinguished 1,00,029 (One Lish) Soft Three Thousand and Twenty First Equity Stores III state. The Company is in the process of entinguishment of the remaining 50,022 Equity Shares bought lack by the Company and shall be complicated in accordance with the Buyback Regulations and the Companies Act, 2013.
 2.4 All Equity Shares bought back were in the demand segment more the Stock Exchanges. As the Buyback was done from the open market transpir the Stock Exchanges. the identity of shareholders from whom Equity Shares exceeding 1% of the total Equity Shares so bought in the Delyback is not shareholders.
 3. CAPITAL STRUCTURE AND SHAREHOLDING PATTERN
 3. The capital structure of the Company as on the state of Public Announcement ("Pre-Buyback") and as on February 10, 2023.

The capital structure of the Company as on t ("Pest-Buyback") is set forth below:

Post-Buyback rtion of the icky Share Copital Authorized Share Capital of the Compa (2.80.90.000 equity shares of £ 10 each) tenued Capital 1.29, 11,344 equity shares of £ 10 each 2 800 00 Butscribed and Politicip Blaze Capital of the Company
Pre-Buyback: 1,27,37,004 copity shares of ₹ 10 each
Post-Buyback: 1,25,37,117 coulty shares of ₹ 10 each
Add: 1,74,280 Equity Shares of ₹ 10 each forfeited 1.273.70 1,253.71 17.43 1,271.14 ty 36,922

Pre-Buyback No. of Equity Shares Emily Shares 62,74,346 62,74,346 82,62,777 1,27,37,664 1,25,37,117 100.00 100.00 Grand Total (A+B+C)

TTI Emell Contact Person Websits SEBI Registrate

ITI Capital Limited ITI House 36, Dr. R. K. Shirodk +91 22 8911 3308 / 6911 3371 +91 22 8911 3309 schar Mary, Parat. Murripai - 400 012

Permanent U74140MH1009PLC122403

DIRECTORS' RESPONSIBILITY

For and on behalf of the Board of Directors of KDDL LIMITED

Bd/-Name: Sanjeev Kumar Masown Designation: Whole Time Director & CFO Des: 03542390

Name: Brahm Prokash Kumar Designation: Company Secretary & Compliance Officer

Place Chardigart Date : February 10, 2023

et in banna

के लिए हर समय प्रचाय कर रही है।

रीम बारत व दियाचल धरकार के द्वारा प्राचीतत कार्यक्रमी को जनता के जीव सफलतास्त्रीक लागे